RateGain Travel Technologies Limited



CIN No.: L72900DL2012PLC244966 E-mail: help@rategain.com Website: www.RateGain.com

May 22, 2024

To.

National Stock Exchange of India Limited (NSE: RATEGAIN) BSE Limited (BSE: 543417)

Subject: Intimation of Publication of Audited Consolidated Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2024

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith a copy of the publication Audited Consolidated Financial Results for the quarter and financial year ended March 31 2024 in the following newspapers on Wednesday, May 22, 2024.

- Financial Express (English Language National Daily Newspaper All India); and
- Jansatta (Hindi Language Daily Newspaper Delhi).

The copies of newspaper advertisements are also available on the Company's website at https://investors.rategain.com.

Yours faithfully,

For RateGain Travel Technologies Limited

(Thomas P. Joshua) Vice President – Legal & Company Secretary Memb. No.: F9839

Encl.: As above

FINANCIAL EXPRESS

SAYS COUNTRY AN ATTRACTIVE MARKET

India has a desire for sovereign Al, says Dell founder

ANUJ BHATIA Las Vegas, May 21

INDIA'S EFFORTS TO build its own AI playbook and ambitions to make a significant impact in artificial intelligence (AI) have caught the attention of Michael Dell, chairman and CEO of Dell Technologies. The billionaire CEO behind one of the world's largest infrastructure companies and a leading PC vendor says India's strong economy, availability of tech talent, and push to lead in AI make it an attractive market for a com-

pany like Dell. "India has talent and is a great resource for Dell and many other companies, but there is a desire for sovereign AI," he told indianexpress.com at a roundtable during the Dell Technologies World event, which kicked off Monday in Las Vegas.

On the global stage, New Delhi has pitched itself to lead in AI, with the goal not just to compete with generative AI models created by big tech but to create its own AI ecosystem.

However, this requires building the AI computer infrastructure from scratch, alongside cultivating AI talent and developing and deploying indigenous large language models. Building a highly scalable AI compute infrastructure with the latest generation GPUs may not come cheap, though. With the Union Cabinet recently approving a national-level India Artificial Intelligence mission with a budget outlay ₹10,371.92

THE SUPREME COURT has

dismissed a batch of petitions

seeking review of its December

11, 2023 verdict that unani-

mously upheld the Centre's

decision to abrogate provisions

of Article 370 bestowing spe-

cial status to the erstwhile

A five-judge bench headed

state of Jammu and Kashmir.

by Chief Justice D Y Chandra-


chud considered the pleas in

crore, doors are opened to build AI compute infrastructure and boost the local AI ecosystem through public and private partnerships.

India joins Saudi Arabia and many other countries in the global race to shape the future of AI technology, including Britain, France,

> MICHAEL DELL, CHAIRMAN & CEO, DELL

"INDIA HAS TALENT AND IS A GREAT RESOURCE FOR DELLAND MANY OTHER COMPANIES, **BUTTHERE IS** A DESIRE FOR **SOVEREIGN AI"**



tasks was the purpose of building machines that plug into the wall. That's kind of where we are right now with AI," Dell said, addressing a packed hall full of partners.

Germany, and the United

Arab Emirates (UAE). Interest

in AI has boomed since Chat-

GPT, a large-language model

developed by Microsoft-

backed startup OpenAI,

became a viral sensation

when it was released in

November 2022. With fierce

competition coming from

Silicon Valley majors and AI

nationalism at an all-time

high, startups are now devel-

oping their own Indian lan-

made significant strides in

the adoption of artificial

intelligence across sectors

and highlighted how the

technology can benefit enter-

prises. It introduced an AI fac-

tory to accelerate enterprise

AI integration in collabora-

At the Vegas event, Dell

guage models.

tion with Nvidia.

(The writer is attending the Dell Technologies World event in Las Vegas at the invitation of Dell India)

Article 370: SC dismisses pleas for review of verdict comprising justices Sanjiv

Khanna, B R Gavai, Surya Kant

and A S Bopanna, said in its

May 1 order. On December 11 last year, the top court, while upholding the Centre's 2019 decision, had ordered assembly elections in Jammu and Kashmir by September end this year and restoration of statehood "at the earliest". —PTI

Swapnil's run gives hope to journeymen


DEVENDRA PANDEY Mumbai, May 21

SWAPNIL SINGH, AT the age of 33, is enjoying his best IPL season while playing for Royal Challengers Bengaluru (RCB). An IPL late bloomer, he nearly left for Bangladesh to play 50over league cricket when his career was going nowhere three years ago.

The spin-bowling all rounder has taken six wickets for RCB with an economy rate of 8.76 and even opened the bowling at times. He has played in each of the six games RCB won on the spin to qualify for the playoffs after languishing at the bottom of the table. This isn't Swapnil's first outing with an IPL team but it is the first time he has got a long run and made an impact. Swapnil made his IPL debut

for Punjab Kings in 2016 and then played two games for Lucknow SuperGiants (LSG) last year. He was first a net bowler for LSG. It was during practice sessions for LSG two years ago that the former Baroda allrounder caught the attention of coach Andy Flower. When the Zimbabwean

moved to RCB at the start of this season, Swapnil got another chance to find his feet in the IPL. Nearly two decades after making his first-class debut at the age of 14, Swapnil's career has got a second wind. A roommate of Virat Kohli during their days as India Under-19 cricketers, Swapnil is now a trusted teammate of the former India captain in the RCB set-up.



"It feels great to see that my brother is getting his due. It took so long for him. He has proved that hard work pays off," Swapnil's vounger brother Ivotsnil

Lucknow to Baroda when Jyotsnil was three and Swapnil 11. Their father took the decision believing they had a brighter cricketing future outside **LUCKY CHARM**

■ The spin-bowling all rounder has taken six wickets for RCB with an economy rate of

and even opened the bowling at times A roommate of

Virat Kohli during their days as India Under-19 cricketers, Swapnil is now a trusted teammate of the former India captain in the RCB set-up

always rewarding merit.

After playing for over a decade for Baroda, Swapnil moved to Uttarakhand. Baroda were looking for fresh legs and his career seemed to have plateaued in 2021.

On the IPL front, he wasn't a regular. This was when he mulled over moving to Bangladesh. Sound advice from former India all-rounder Irfan Pathan, his mentor, made him stay back.

The call up to be a net bowler for LSG came from his Baroda teammate and close friend Deepak Hooda. The first time he cut the call because he was disappointed at receiving a netbowler offer from an IPL team. said. The brothers moved from their home state, known for But Hooda called again and his fortunes changed.

insisted that it was a good move. However, the confirmation from LSG took time. "He was not sure and was in two minds. He had one offer to play league cricket in Bangladesh. He felt he would have gained from the experience instead of being a net bowler in the IPL," Pathan

told this paper. Swapnil told RCB Bold Diaries that when a week passed with no update from LSG, he called Pathan again. Pathan in turn called his former India teammate Gautam

Gambir, the then LSG mentor. "I called Gautam and said, tu dekh le ek baar is ladke ko? (take a look at this boy) Gautam said, ok, tu bol raha hai toh theek hai (ok I will, since you are asking me to). He was picked and there he met Andy Flower, who liked his approach," Pathan said. After Flower moved to RCB, Swapnil was asked to appear for trials.

"Before RCB picked me in the auction, they had organised a trial-cum-camp. I spoke to Andy sir and told him all about how my (domestic) season had gone I told him, 'Just give me one chance. This might be my last chance. Just have faith in me," Swapnil told RCB Bold Diaries.

However, Swapnil thought he had hit a hurdle when RCB didn't pick him in the first round of the auctions. "I thought I would play out the ongoing domestic season and if needed, I would end my career after playing the next season because I did not want to keep playing all my life," he said. But RCB eventually bought him and

India up 15 notches in travel index since pandemic

FE BUREAU New Delhi, May 21

INDIA'S RANKING IN the World Economic Forum's (WEF) Travel and Tourism Development Index (TTDI) improved to 39th in 2024 from 54th in 2021, making it the highest-ranking lower-middleincome country.

India is now the highest ranked country in South Asia in this respect.

The WEF report says that international tourist arrivals and the travel and tourism sector's contribution to global GDP are expected to return to pre-pandemic levels this year, driven by the lifting of Covid-19-related travel restrictions and strong pent-up demand.

The top five-countries in the TTDI list are: United States, Spain, Japan, France, and Australia. As per the report, India is

YoY

income up

5%

YoY

PBIDT up

22%

YoY

PAT up

18%

TOP 10 COUNTRIES IN 2024

1	Rank	Economy	Score*	
	1	United States	5.24	
	2	Spain	5.18	
	3	Japan	5.09	
	4	France	5.07	
	5	Australia	5.00	
	6	Germany	5.00	
	7	United Kingdom	4.96	1/4/
	8	China	4.94	
	9	Italy	4.90	1
	10	Switzerland	4.81	
	*Overa	Il scores range from	1 to 7 wh	ere 1 = worst and 7 = best.

highly price-competitive, and boasts competitive air transport, and ground and port infrastructure. "In particular, the nation's strong natural,

Source: World Economic Forum

cultural and non-leisure resources help drive travel." Moreover, despite a decline in ranking compared to 2019,

India still scores well for T&T

demand sustainability, especially thanks to more sustainable long stays among inbound visitors, the report said.

As with many economies, T&T enabling conditions in India have been impacted by global inflationary T&T sector supply-side trend with price competitiveness declining,

while air transport and tourist services infrastructure are vet to recover. "This year marks a turning

point for the travel and tourism sector, which we know has the capacity to unlock growth and serve communities through economic and social transformation," said Francisco Betti, Head of the Global Industries team at the WEF.

"The TTDI offers a forwardlooking window into the current and future state of travel and tourism for leaders to navigate the latest trends in this complex sector and sustainably unlock its potential for communities and countries across the world," he said.

In 2024, the global tourism industry's recovery has been mixed.

While 71 of the 119 ranked economies increased their index score is just 0.7% above pre-pandemic levels.

scores since 2019, the average

Although the sector has moved past the shock of the global health crisis, it continues to deal with other external challenges, from growing macroeconomic, geopolitical and environmental risks, to increased scrutiny of its sustainability practices and the impact of new digital technologies, such as big data and artificial intelligence (AI), the WEP report noted.

In addition, labour short ages are ongoing, and air route capacity, capital investment, productivity and other sector supply factors have not kept up with the increase in demand, it said.

"This imbalance, worsened

by global inflation, has increased prices and service issues."

chambers and dismissed

applications for listing of

the review petitions in the

petitions, there is no error

apparent on the face of the

record. No case for review

under Order XLVII Rule 1 of the

Supreme Court Rules 2013.

The review petitions are, there-

fore, dismissed," the bench, also

"Having perused the review

open court.

RATEGAIN TRAVEL TECHNOLOGIES LIMITED

CIN: L72900DL2012PLC244966 Regd.office :- M-140, GREATER KAILASH PART-II, NEW DELHI 110048, INDIA

Extract of Statement of Audited Consolidated Financials Results for the guarter and year ended March 31, 2024

۳			Quarter ende	d	Year	ended
	Particulars	March 31, 2024	December 31, 2023	March 31, 2023	March 31, 2024	March 31, 2023
		(refer note 3)	Unaudited	(refer note 3)	Audited	Audited
1.	Total Income	2768.57	2628.89	1877.29	9985.86	5850.60
2.	Income from operations	2558.10	2520.19	1829.32	9570.31	5651.28
3.	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	654.51	520.24	258.47	1888.72	672.58
4.	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	654.51	520.24	258.47	1888.72	672.58
5.	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	500.24	404.24	337.87	1453.93	684.01
6.	Total comprehensive income for the period [comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	484.00	442.07	298.57	1505.53	807.77
7.	Equity Share Capital	117.78	117.81	108.32	117.78	108.32
8.	Other equity as per previous year				14386.93	6989.12
9.	Basic and diluted earnings per share	Not	Not	Not		Ď.
	(Face Value of INR 1 each) (In INR.)	annualised	annualised	annualised		
	Basic EPS	4.25	3.59	3.13	13.01	6.33
	Diluted EPS	4.20	3.58	3.11	12.84	6.29

Place : Delhi

Date: May 21, 2024

financiale

s.in

1 The above consolidated financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (referred to as "Ind AS') as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended from time to time.

2 The above consolidated financial results for the guarter and year ended March 31, 2024 were reviewed and recommended by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors at its meeting held on May 21, 2024. The Statutory Auditors have expressed an unmodified audit opinion on these results. 3 The figures for the quarter ended 31 March 2024 and 31 March 2023 are the balancing figures between audited figures for the full

financial year and the reviewed year-to-date figures upto the third quarter of the respective financial year. The above information is an extract of the detailed format of audited consolidated financial results filed by the company with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the above financial results are available on the Stock Exchange websites, (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and also on

Company's website at www.rategain.com 5 The summary of the audited standalone financial results of the Company for the quarter and the year ended March 31, 2024 is given below:

(in ₹ million, except for share data and if otherwise stated) Quarter ended Year ended March December March March March **Particulars** 31, 2023 31, 2024 31, 2023 31, 2024 31, 2023 refer note 3) Unaudited (refer note 3) 677.30 605.75 2212.28 1351.59 Total Income 377.35 492.71 465.29 317.66 1733.92 1132.76 Income from operations Net Profit before tax 243.49 225.05 (17.61)594.15 83.20 Net Profit after tax 179.34 (16.84)438.69 57.37

> For and on behalf of the Board of Directors RATEGAIN TRAVEL TECHNOLOGIES LIMITED

Bhanu Chopra (Chairman and Managing Director)



Tel: 91-1423-224001 Fax: 91-1423-224420 CIN: L18101RJ1992PLC006952 Website: www.mayuruniquoters.com Email: secr@mayur.biz

Extract of Consolidated Financial Results

for the Quarter and Year Ended 31st March 2024

(Rs. in Lakhs, except stated) **Year Ended**

Quarter Ended Particulars 31.03.2024 31.12.2023 31.03.2023 31.03.2024 31.03.2023 (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited) (Audited) Total Income from Operations 18,740.74 19,507.35 83,482.67 79,337.65 22,757.48 19,068.12 Operating Profit (PBIDT) 4,799.03 4,451.01 3,706.87 15,645.45 Net Profit/ (Loss) for the period Before Tax 3,993.01 3,645.44 2,930.36 15,881.97 13,170.47 Net Profit / (Loss) for the period After Tax 3,221.54 2,729.94 2,338.33 12,246.83 10,420.70 2,237.52 12,226.97 3,149.67 2.765.29 10,534.48 Total Comprehensive Income for the period Equity Share Capital (of Rs. 5/- each) 2,197.63 2,197.63 2,197.63 2,197.63 2,197.63 84,512.42 7 Other Equity (Reserves) 73,164.49 8 Earning Per Share: Basic (in Rs.) 7.32 6.22 5.32 27.86 23.69 27.86 Diluted (in Rs.) 7.32 6.22 5.32 23.69



Note: *Standalone Financial Information of the Company, pursuant to Regulation 47(1)(b) of SEBI (LODR): **Quarter Ended**

(Rs. in Lakhs, except stated) **Year Ended** 31.03.2024 31.03.2023 (Audited)




Automotive

		(Ollauulleu)	(Ollauulleu)	(Ollauulleu)	(Audited)	(Auulleu)
1	Turnover	21,610.22	17,464.11	19,880.24	76,424.04	76,409.09
2	Operating Profit (PBIDT)	4,765.94	4,685.27	4,189.56	18,659.17	15,980.16
3	Profit before Tax	3,971.16	3,887.28	3,422.00	15,510.46	13,533.90
4	Profit after Tax	3,198.44	2,925.32	2,737.61	11,954.78	10,748.14

31.12.2023

31.03.2024


and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Standalone and Consolidated Quarterly and Yearly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchanges i.e. www.nseindia.com and www.bseindia.com, and also on Company's website at www.mayuruniquoters.com For and on behalf of the Board of Directors



SI.No.







31.03.2023



Chairman & Managing Director & CEO

Suresh Kumar Poddar

DIN-00022395

Footwear

New Delhi

Particulars

U.P. STATE SUGAR CORPORATION LTD., UNIT-MOHIUDDINPUR (MEERUT) Ref. No. MOH/PD/2024-25/124 Dated 21.05.2024

CORRIGENDUM To All Concerned, SUB.: TENDER NOTICE NO. MOH/PD/ 2024-25/121 DATED 20.05.2024, PUBLISHED ON 21.05.2024

In reference to the captioned tender notice, cited term "Expected Minimum Price" should be read as "Rs. 70.00 Lac to 75.00 Lac" instead of Rs. 70.00 to 55.00 Lacs. All other terms and conditions shall remain unchanged. **GENERAL MANAGER**



"TENDER NOTICE FOR SUPPLY AND FIXING OF INTERACTIVE FLAT PANELS FOR ACADEMIC BLOCK, AIE GREATER NOIDA"

 Tenders are invited for supply and fixing of interactive panels for academic block AIE Greater NOIDA.

2. Details available at Institute's website: www.aie.ac.in till 5 PM on 10 June, 2024.

केनरा बैंक Canara Bank

िसिंडिकेट Syndicate

(अचल सम्पत्तियों का कब्जा नोटिस)

यद्यपि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण व पूनर्गठन तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम—3 के साथ पठित धारा—13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने निम्नलिखित बकायेदार ऋणियों एवं गारन्टरों को नोटिस में वर्णित राशि, नोटिस प्राप्ति के 60 (साठ) दिनों के अन्दर अदा करने हेतु मांग नोटिस जारी की थी। ऋणियों एवं गारन्टरों के द्वारा इस राशि की अदायगी में विफल रहने पर एतदुद्वारा आम जनता को एवं ऋणियों एवं गारन्टरों को विशेष रूपसे सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित सम्पत्ति का उपरोक्त अधिनियम की धारा—13 (4) एवं नियमों के उपनियम—8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा आधिपत्य उनके सम्मुख अंकित तिथि को कर लिया गया है। उधारकर्ताओं / जमानतदाताओं / बंधककर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है कि वे उपलब्ध अवधि के अन्दर बैंक देयों का भुगतान कर बंधक सुरक्षित परिसम्पत्तियों को मुक्त करा लें। एतदुद्वारा ऋणियों / गारन्टरों को विशेषतः और जनसाधारण को सामान्यतः सूचिंत किया जाता है कि चूंकि निम्न सम्पत्ति का प्रतीकात्मक अधिग्रहण कर लिया गया है, अतः इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई भी सौदा/व्यवहार बैंक के अतिरिक्त अन्य किसी से न करें एवं ऐसा कोई भी सौदा/व्यवहार केनरा बैंक को देय राशि व तत्सम्बन्धित ब्याज हेतु जैसा कि नीचे खाते के सम्मुख उल्लेखित किया गया है, के अध्याधीन होगा।

ऋणियों / गारण्टरों का नाम	बंधक सम्पत्तियों का विवरण	भाग नाटस क अनुसार बकाया राशि मांग सूचना की तिथि कब्जे की तिथि
	शाखाः गनेशपुर (4299)	
ऋणीः मै० ललित प्रिंटर्स प्रो0— अमरीश कुमार पुत्र छदामीलाल।	भूमि एवं भवन के सभी भाग एवं खंड संपत्ति प्लॉट, भूमि नं0 75 का भाग, पश्चिम (अब निर्मित दुकान) स्थित मौजा गनेशपुर परगना तथा तहसील पटियाली जिला कासगंज, यू0पी0— 207242, एरियाः 200 वर्ग फीट, संपत्ति श्री अमरीश कुमार पुत्र छदामीलाल के नाम। चौहद्दीः पूरब— मोहर सिंह का प्लॉट, पश्चिम— रोड, उत्तर— संपत्ति जगन्नाथ, दक्षिण— संपत्ति किशनलाल।	रू. 1197812.82 + ब्याज दि. 01.07.2023 से व अन्य खर्चे 05.07.2023 04.05.2024
ऋणीः मै० किशन ट्रेडिंग कम्पनी प्रो० — शकील अहमद पुत्र मो. शरीफ	भूमि एवं संपत्ति के सभी भाग एवं खंड आवासीय सम्पत्ति ग्राम सुजवलपुर, गंजडुंडवारा, जिला कासगंज, यू0पी0— 207242, एरियाः 33.50 वर्ग मी., संपत्ति श्रीमती हसीना बेगम पत्नी शकील अहमद के नाम। चौहद्दीः पूरब— सरकारी रोड, पश्चिम— कमारूद्दीन की संपत्ति, उत्तर— गैलरी एवं शबीर खान की दुकान, दक्षिण— विक्रेता का प्लॉट।	रू. 707286.00 + ब्याज दि. 11.12.2023 से व अन्य खर्चे 13.12.2023 04.05.2024
दिनांकः 08.0	5.2024 प्र	ाधिकृत अधिकारी

RATEGAIN TRAVEL TECHNOLOGIES LIMITED

CIN: L72900DL2012PLC244966 Regd.office :- M-140, GREATER KAILASH PART-II, NEW DELHI 110048, INDIA

Extract of Statement of Audited Consolidated Financials Results for the quarter and year ended March 31, 2024

			Year ended			
	Particulars	March 31, 2024	December 31, 2023	March 31, 2023	March 31, 2024	March 31, 2023
		(refer note 3)	Unaudited	(refer note 3)	Audited	Audited
1.	Total Income	2768.57	2628.89	1877.29	9985.86	5850.60
2	Income from operations	2558.10	2520.19	1829.32	9570.31	5651,28
3.	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items.)	654.51	520.24	258.47	1888.72	672.58
4.	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	654.51	520.24	258.47	1888.72	672.58
5.	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	500.24	404.24	337.87	1453.93	684.01
6.	Total comprehensive income for the period [comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	484.00	442.07	298.57	1505.53	807.77
7.	Equity Share Capital	117.78	117.81	108.32	117.78	108.32
8.	Other equity as per previous year	2	- 2	7.5	14386.93	6989.12
9.	Basic and diluted earnings per share (Face Value of INR 1 each) (In INR.)	Not annualised	Not annualised	Not annualised		
	Basic EPS	4.25	3.59	3.13	13.01	6.33
Ш	Diluted EPS	4.20	3.58	3.11	12.84	6.29

- 1 The above consolidated financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (referred to as "Ind. AS') as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as
- ? The above consolidated financial results for the quarter and year ended March 31, 2024 were reviewed and recommended by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors at its meeting held on May 21, 2024. The Statutory Auditors have expressed an unmodified audit opinion on these results.
- 3 The figures for the quarter ended 31 March 2024 and 31 March 2023 are the balancing figures between audited figures for the full financial year and the reviewed year-to-date figures upto the third quarter of the respective financial year.
- The above information is an extract of the detailed format of audited consolidated financial results filed by the company with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the above financial results are available on the Stock Exchange websites, (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and also on Company's website at www.rategain.com
- 5 The summary of the audited standalone financial results of the Company for the quarter and the year ended March 31, 2024 is given below:

		Year	ended			
Particulars	March 31, 2024	December 31, 2023	March 31, 2023		March 31, 2023	
	(refer note 3)	Unaudited	(refer note 3)	Audited	Audited	
Total Income	677,30	605,75	377.35	2212.28	1351.59	
Income from operations	492.71	465.29	317.66	1733.92	1132.76	
Net Profit before tax	243.49	225.05	(17.61)	594.15	83.20	
Net Profit after tax	179.34	166.39	(16.84)	438.69	57.37	

RATEGAIN TRAVEL TECHNOLOGIES LIMITED

	\$d/-
Place : Delhi	Bhanu Chopra
Place : Delhi Date : May 21, 2024	(Chairman and Managing Director)

SMART FINSEC LTD.

CIN: L74899DL1995PLC063562 REGD. OFFICE: F-88, WEST DISTRICT CENTRE, SHIVAJI ENCLAVE, OPP. TDI PARAGON MALL, RAJOURI GARDEN, NEW DELHI-110027 Phone-011-25167071, Website: www.smartfinsec.com, Email: smartfinsec@gmail.com

Extract of Audited Standalone Financial Results for the guarter and year ended March 31, 2024

	2	0			c	Rs. in Lakhs
SI.	\$40 MW2 V/O	į.	Quarter Ende	ed	Year E	Ended
No.	Particulars	Mar 31, 2024 Audited	Dec 31, 2023 Unaudited	Mar 31, 2023 Audited	Mar 31, 2024 Audited	Mar 31, 2023 Audited
1	Total income from operations	83.56	1,124.87	434.21	2,507.10	3,075.48
2	Profit / (loss) for the period before tax and exceptional items	66.67	47.15	14.51	308.74	191.91
3	Profit / (loss) for the period before tax and after exceptional items	66.67	47.15	14.51	308.74	191.91
4	Net profit / (loss) for the period after tax	53.02	36.88	7.42	236.52	141,25
5	Total comprehensive income for the period	53.02	36.88	7.42	236.52	141.25
6	Paid-up equity share capital (Face value per share Rs.1/- each)	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
7	Earnings per share			0.0000		
	a) Basic (Rs. per share)	0.18	0.12	0.02	0.79	0.47
	b) Diluted (Rs. per share)	0.18	0.12	0.02	0.79	0.47

Notes:

- 1. The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in its meeting
- The above is an extract of the detailed format of quarterly / year to date Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly / year to date Financial Results are available on the website BSE Limited at www.bseindia.com and on Company's website www.smartfinsec.com.

For and on behalf of Smart Finsec Limited

Place: New Delhi Date: 21st May 2024

Arun Khera Managing Director DIN-00055694

श्री अमरनाथ फाईनेन्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 4883-4884, द्वितीय मंजिल, मेन रोड, कूचा उस्ताद डाग, चांदनी चौक, दिल्ली-110006 दूरभाष : 011-23953204, ईमेल: amarnath01finance@gmail.com, CIN No. L74899DL1985PLC020194 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही एवं वार्षिक के अंकेक्षित वित्तीय परिणाम कथन

क्र०	विवरण		समाप्त तिमाही		समाप्त वि	त्तीय वर्ष
सं०		31.03.2024	31.12.2023	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
		(अंकेक्षित)	(अनअंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)
1	संचालन से कुल आय (नेट)	91.65	190.42	120.68	524.20	488.82
2	अवधि के लिए नेट लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पहले)	55.96	157.24	79.92	383.08	331.74
3 एवं ∕	अवधि के लिए नेट लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट अथवा असाधारण मदों के बाद)	55.96	157.24	79.92	383.08	331.74
4	कर के बाद सामान्य कार्यकलापों से नेट लाभ/(हानि)	31.92	109.66	63.86	274.08	259.00
5	कर के बाद अवधि के लिए नेट लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	31.92	109.66	63.86	274.08	259.00
6	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि के लिए शामिल लाभ/(हानि) (कर के बाद) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद)]	31.92	109.66	63.86	274.08	259.00
7	इक्वीटी शेयर कैपीटल	998.00	998.00	998.00	998.00	998.00
8	रिजर्व रिवेल्सवेसन रिजर्व को छोड़कर जैसा कि अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाया गया					6,023.76
9	प्रति इक्वीटी शेयर आय (सममूल्य रू० 10/- प्रत्येक) (संचालन जारी एवं बंद करने के लिए)					
	- मूल (वार्षिकीकृत नहीं)*	0.32	1.10	0.64	2.75	2.60
	- तरल (वार्षिकीकृत नहीं)*	0.32	1.10	0.64	2.75	2.60

तिथि: 21.05.2024

स्थान : दिल्ली

मांग नोटिस के

- 1 उपरोक्त परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा और सिफारिस की गई और निदेशक मंडल ने उनकी मई 21, 2024 को सम्पन्न बैठक में अंमोदित किये गये।
- 2 सेबी (सूचीबद्वता दायत्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अन्तर्गत उपरोक्त तिमाही/वार्षिक उद्वरित वित्तीय परिणामों के विस्तारित प्रारूप स्टॉक एक्सचेन्ज में दाखिल किये गये। तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेन्ज की वेबसाइट i.e. www.bseindia.com एवं कम्पनी की वेबसाइट www.sriamarnathfinance.in पर उपलब्ध है।

कृते अमरनाथ फाईनेन्स लिमिटेड

राकेश कपूर प्रबन्ध निदेशक DIN:00216016

कार्यालय वसूली अधिकारी

T.R.C. No. 333/2022

बिक्री उद्घोषणा

ऋण वसूली अधिकरण-।, दिल्ली

चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

युबीआई बनाम श्रीमती राज रानी

बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं को देय ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के तहत बिक्री की उदघोषणा

सीडी 1. श्रीमती राज रानी पत्नी श्री प्रेम सिंह

सीडी 2. श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री सोरन सिंह दोनों निवासी i) ई-150-151, सेक्टर-18, रोहिणी, दिल्ली-85, ii) मकान नंबर 107, प्रथम तल, पाकेट-11, सेक्टर-24 रोहिणी, दिल्ली-85, iii) पीपी-108, द्वितीय तल, गोपाल मंदिर के पीछे, मौर्य एन्क्लेव, पीतमपुरा, दिल्ली-54

- जहाँ पर पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण- । द्वारा ट्रांसफर वसूली प्रमाणपत्र सं 3332022, ओ ए सं 118 / 2013 के द्वारा वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार वाद के शुरुआत से रू. 19.48,199/- (रू. उन्नीस लाख अडतालीस हजार एक सी निन्यान्ये मात्र) और साथ में दिनांक 11.06.2013 से 11.25% वार्षिक ब्याज वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार, साथ में लागत एवं प्रभार भी प्रमाणपत्र देनदार से वसूली
- और जबकि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रमाणपत्र के समाशोधन में नीचे तालिका में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।
- एतदहारा सुबना दी जाती है कि कोई स्थमनादेश नहीं होने की रिधति में उक्त सम्पत्ति ई—मीलामी द्वारा बेबी जाएगी तथा बोलीदान वेबसाइट https://www.bankeauction.com के माध्यम से 28-06-2024 को पूर्वा. 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक और दोपहर 12.00 बजे के बाद 5 मिनट की अवधि के विस्तारों, यदि अपेक्षित है, के साथ 'ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक ब्रिडिंग' द्वारा सम्पन्न होगा। उपरोक्त नाम के प्रतिवादी की सम्पत्ति की बिक्री उपरोक्तानुसार सम्पत्ति के लिए संलग्न देनदारियों एवं दावें को जैसा अभी तक निधारित
- किया गया है, ये प्रत्येक लॉट के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। सम्पत्ति बिक्री के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट लॉट पर की जाएगी, यदि सम्पत्ति भाग की बिक्री की राशि संतुष्टि लायक होगी तो शेष के संबंध में बिक़ी को तुरन्त समाप्त कर दिया जाएगा। किसी लॉट के नीचे गिरने पर भी बिक़ी समाप्त कर दी जाएगी। बिक़ी कर रहे अधिकारीं के समक्ष प्रमाणपत्र में उल्लिखित बकाया, ब्याज शुल्क (बिक्री लागत सहित) प्रस्तुत करने होंगे अथवा उनकी संतुष्टि के साक्ष्य
- प्रस्तुत करना होगा कि प्रमाणपत्र, ब्याज एवं लागत अद्योहस्ताक्षरी को भूगतान किए जा चुके हैं। बिक्री से संबंधित कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति निविदा के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्पत्ति की बिक्री के लिए अधिग्रहण अथवा
- आयकर अधिनियम 1961 के द्वितीय अनुसूची के शर्तों एवं उसके नियमों के तहत तथा निम्न शर्तों के अनुरुप ही बिक्री की जाएगी। बिक्री उद्योषणा के अनुसूची में उल्लिखित विवरण अद्योहस्ताक्षरी के सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दर्शाया गया है परन्तु किसी त्रूटी,
- गलत ब्यान अथवा उदघोषणा में चुक के होने पर अद्योहस्ताक्षरी के द्वारा प्रत्युत्तर नहीं दिए जाएंगे। 7.2 आरक्षित मूल्य के नीचे सम्पत्ति नहीं बेची जाएगी (i) मकान नं. 107, 1 मंजिल, पॉकेट-11, सेक्टर-24, रोहिणी, दिल्ली, आरक्षित मूल्यः रु. 32,00,000 /- (रु. बत्तीस लाख मात्र) पैरा (।) में उल्लिखित संपत्ति के संबंध में और जमा धरोहर राशि (ईएमडी): रु. 3,20,000 (रु. तीन लाख बीस
- हजार मात्र) पैरा (1) में उल्लिखित संपत्ति के संबंध में 7.3 इच्छुक बोलीदाताओं जिन्होंने अपनी बोली (आरक्षित मूल्य से कम नहीं) के साथ में दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, पहचान साक्ष्य और पता साक्ष्य, वसूली अधिकारी-।, बीआरटी-।।, दिल्ली के कार्यालय में दिनांक 28.08.2024 को सांय 5.00 बजे से पहले जमा कराया होगा वे ही दिनांक 28.06.2024 को पूर्वाह, 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक होने वाली ई-नीलामी में भाग ले सकते है। योली यदि ई-नीलामी समाप्ति हेत् निर्धारित समय के अंतिम 5 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो उस दशा में ई-नीलामी बंद होने का समय 5 मिनट स्वतः बढ
- जायेगा। 7.4 बोलीदाता अपना बोली रु. 1,00,000 / — (रुपए एक लाख मात्र) के गुणकों में बढ़ाएंगे।
- 7.5 असफल बोलीदाता अपनी घरोहर राशि ई-नीलामी बिक्री प्रक्रिया बंद होने के तत्काल बाद सीधे वसूली अधिकारी-। डी आर टी-।। दिल्ली / सी एच बैंक अर्थात यूबीआई से प्राप्त कर सकते है।
- 7.6 सफलतम / उच्चतम बोलीदाता को बिक्री मूल्य का 25 प्रतिशत राशि **वसूली अधिकारी—।, ढी आर टी—।।,** दिल्ली, **खाता टी आर सी न**. 333 / 2022 के पक्ष में बैंक ब्राफ्ट / पे-ऑर्डेर के द्वारा ऑन लाईन निलामी बंद होने के 24 घण्टे के अंदर तैयार करना होगा और धरोहर राशि को समायोजित करने के पश्चात यह ऑनलाईन निलामी के बंद होने से 3 दिनों के भीतर वसुली अधिकारी-।, डी आर टी-।।, दिल्ली के कार्यालय में पहुँच जाना चाहिए, ऐसा ना करने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जाएंगी।
- सफलतम / उच्चतम बोलीदाता सम्पत्ति बिक्री मूल्य का बकाया 75 प्रतिशत राशि वसूली अधिकारी- I, डी आर टी- I I, दिल्ली, खाता टी आर सी न. 333 / 2022 के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट / पे-ऑर्डर के द्वारा सम्पत्ति की बिक्री की तिथि (उस दिन को छोड़कर) से 15वें दिन या उससे पहले **वसूली अधिकारी- ।, डी आर टी- । ।, दिल्ली** के समक्ष जमा करेगा और यदि 15वें दिन रविवार या अवकाश होता है तो अगले कार्य दिवस पर (15 दिन के पश्चात) ऐसा किया जाऐगा। एवं 2 प्रतिशत रु. 1000 / – तक और उसके बाद शेष राशि पर 1 प्रतिशत की दर से पाउण्डेज फीस का भुगतान रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण-।। दिल्ली के पक्ष में जमा करवाना होगा (75 प्रतिशत शेष जमा राशि के मामले में यदि पोस्ट के माध्यम से भेजा जाता है तो उपरोक्तानुसार में वसूली अधिकारी तक पहुँच जाना चाहिए)
- उपरोक्त समयावधि में भुगतान ना करने पर, उक्त सम्पत्ति की पुन: बिक्री नई उदघोषणा जारी करके की जाएगी। उस स्थिति में चुककर्ता केता के द्वारा जमा राशि को अधोहरलाक्षरकर्ता यदि उचित समझता है तो विक्रय के खर्चे समायोजित किये जाने के पश्चात सरकारी खाते में जब्त कर ली जायेगी एवं उस रिथति में चुककर्ता क्रेता के उक्त सम्पत्ति के सम्बंध में या राशि के किसी भाग के सम्बंध में प्राप्त समस्त अधिकार जब्त हो जायेंगे।
- सम्पत्ति को "जहाँ है जैसा है आधार" पर बेचा जाएगा यदि कोई बोली या सभी बोलियों अरवीकार्य पाई जाती हैं तो वसुली अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को खीकार
- या अस्वीकार करने या बिक्री प्रास्थगित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है।

बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण	सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर राजस्व जिसका मूल्यांकन किया गया है	किसी भी प्रकार के भार का विवरण जिसके लिए सम्पत्ति उत्तरदावी है	विवाद अगर कोई है जो कि सम्पर्ध के सम्बंध में आगे आवा है एवं अन कोई ज्ञात विशिष्टियां जोकि इसके मृत्य एवं प्रकृति प्रमाव रखता है।	
मकान नं. 107, प्रथम तल, पाकेट—11, सेक्टर—24, रोहिणी, दिल्ली, क्षेत्रफल 581 वर्ग फीट	হ্বার নর্চী	झात नहीं	ज्ञात नहीं	

हस्ता/- (उत्तम नेगी) मेरे समक्ष दिनांक 25.04.2024 को मोहर किया गया वसली अधिकारी-। डीआरटी-।। दिल्ली

(रू० लाखों में) ईपीएस को छोडकर

एसएनएस प्रॉपर्टीज एंड लीजिंग लिमिटेड सीआईएनः L65922DL1985PLCO20853 पंजीकृत कार्यालयः यूनिट 204 प्लाजा पी-3 सेंट्रल स्क्वायर 20 मनोहर लाल खुराना मार्ग, बारा हिंदू राव, दिल्ली-110006,

ईमेलः sns.prop.ltd©gmail.com, संपर्क नंबर : 62393-42250 सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 29 के अनुसार, हम यह सूचना देते हैं कि

कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक गुरुवार, 30 मई, 2024 को दोपहर 2: 00बजे अपराह नई दिल्ली में, अन्य बातों के साथः . 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर विचार करना, अनुमोदन करना और रिकॉर्ड पर

. 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही और वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार करन कोई अन्य मामला जिस पर कंपनी का निदेशक मंडल बैठक के दौरान निर्णय ले सकता है। इसके अलावा, कृपया ध्यान दें वि कंपनी की निष्पक्ष प्रकटीकरण संहिता और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के तहत अंदरूर्न व्यापार की रोकथाम के लिए आचार संहिता के अनुसार, कंपनी के शेयरों में लेनदेन के लिए ट्रैंडिंग विंडो पहले ही बंद कर व गई है। 01 अप्रैल, 2024 से, और 30 मई, 2024 को कंपनी के वित्तीय परिणामों की घोषणा के 48 घंटे बाद समाप्त हो जाएगा

एसएनएस प्रॉपर्टीज एंड लीजिंग लिमिटेड के लिए हस्ता / दिनांकः 21/05/2024 (अधीश स्वरूप स्थानः दिल्ली कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

ऋण वस्ली अधिकरण-II चंडीगढ़

एस.सी.ओ. नं. 33-34-35, प्रथम तल, सेक्टर-17 ए, चंडीगढ़-II आरसी नं. 706/2018 (प्रकाशन)

... प्रमाणपत्र धारक

पीएनबी

मैसर्स एम.के. ऑटो ... प्रमाणपत्र देनदार आरडीडीबी एवं एफआई अधिनियम, 1093 की धारा 25 से 28 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के तहत मांग सूचना।

बनाम

- . **मैसर्स एम.के. ऑटो इंडस्ट्रीज**, प्लॉट नंबर एच1/726 सेक्टर-1ए, श्री सीमेंट के पास, रीको, गांव खुसखेड़ा, भिवाड़ी जिला अलवर राजस्थान अपने एकमात्र प्रोपराइटर नरेश कुमार के माध्यम से।
- **नरेश कुमार पुत्र दुली चंद** निवासी मकान नंबर 3 ग्राम सीही डाकघर खेड़की दौला तहसील व जिला। **सुरिंदर सिंह पुत्र दुली चंद** निवासी मकान नंबर गांव सीही पी.ओ. खेड़की दौला तहसील और जिला गुड़गांव
- माननीय पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी ओ.ए. संख्या 187/2017 में वसूली **प्रमाण पत्र संख्या 706/2018** के
- अनुसार, आप पर रु. 72,76,123.24 की राशि बकाया हो गई है।
- आपसे इस नोटिस की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर उपरोक्त राशि जमा करने के लिए कहा जाता है।
- उपरोक्त राशि के अतिरिक्त, आप वसूली प्रमाणपत्र में आदेश के अनुसार ब्याज भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। इस नोटिस की सेवा और देय राशि की वसूली के लिए मेरे द्वारा की गई अन्य प्रक्रिया के संबंध में किए गए सभी लागत, शुल्क और बकाया व्यय।

आपको अपनी चल और अचल संपत्ति का खुलासा करने वाले शपथ पत्र के साथ 11.06.2024) को अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया जाता है। यदि आप उक्त तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिकृत प्रतिनिधि/वकील के माध्यम से उपस्थित नहीं होते हैं, तो मामले का निर्णय कानून के अनुसार किया जाएगा। 07.12.2023 को चंडीगढ़ में मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मुहर के तहत दिया गया।



(वसुली अधिकारी-क्क) डीआरटी-II, चंडीगढ़

dhani

धनी सर्विसेज लिमिटेड (CIN: L74110HR1995PLC121209)

पंजीकृत कार्यालय: पाँचवी मंजिल, प्लॉट क्र. 108, आईटी पार्क, उद्योग विहार, फेज 1, गुड़गाँव - 122016, हरियाणा

ई-मेल: support@dhani.com, दूरभाष : 0124-6685800, वेबसाईट: www.dhani.com

डाक मतपत्र सूचना और रिमोट ई-वोटिंग

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि 17 मई, 2024 की सूचना पत्र सूचना में लिखित विशेष प्रस्तावित व्यापार के लिए सदस्यों की सहमति प्राप्त करने हेत् जो कि ईलेक्टोनिक माध्यम से मतदान द्वारा डाक मतपत्र से निष्पादित किया जाता है, धनी सर्विसेज लिमिटेड ("कंपनी") ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 एवं कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के अध्याय VII नियम नं. 22 के अनुसार पात्र सदस्यों को सूचना का प्रेषण 21 मई, 2024 को पूर्ण कर दिया है।

सामान्य परिपत्र नं. 14/2020, दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 17/2020, दिनांक 13 अप्रैल, 2020,

22/2020, दिनांक 15 जून, 2020, 33/2020, दिनांक 28 सितंबर, 2020, 39/2020, दिनांक 31 दिसंबर, 2020, 10/2021, दिनांक 23 जून, 2021, 20/2021, दिनांक 08 दिसंबर, 2021, 3/2022, दिनांक 05 मई, 2022, 11/2022, दिनांक 28 दिसंबर, 2022 और 09/2023, दिनांक 25 सितंबर, 2023, जो कारपोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए परिपत्र") द्वारा प्रसारित है, और लागु नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप, दिनांक 17 मई. 2024 (निर्धारित तिथि) के अनुसार हाक मतपत्र सचना केवल इलेक्ट्रॉनिक जरिए से उन सदस्यों को भेजा गया है जिनका ई-मेल आईडी उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीमैंट फॉर्म में रखे शेयरों के मामले में) कंपनी रजिस्टार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) (भौतिक रुप में रखे गए शेयर है तो) के साथ पंजीकृत है।

जो सदस्य अपने मतदान का प्रयोग ई-वोटिंग से करना चाहता हैं, जिसका प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 एवं कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम नं. 20 और सेबी (सूची निर्धारण और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 44 में है, उनके लिए कंपनी मैसर्स क्रेफिन टेक्नोलोजिज़ लिमिटेड (केफिन्टैक) के माध्यम से ई-वोटिंग की व्यवस्था प्रदान कर रही है । ई-वोटिंग की प्रक्रिया उक्त सूचना में और ई-बोटिंग वेबसाईट https://evoting.kfintech.com पर उपलब्ध है ।

ई-वोटिंग बुधवार, 22 मई, 2024 को सुबह 10 बजे से शुरू होगी और गुरूवार, 20 जून, 2024 शाम 5 बजे तक बारी रहेगी । गुरुवार, 20 जून, 2024 शाम 5 बजे के बाद ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी ।

सदस्यों के लिए ई-मतदान की निर्धारित तिथि शुक्रवार , दिनांक 17 मई, 2024 तथ की गई है। जिन सदस्यों का नाम इस निर्धारित तिथि पर सदस्य - रजिस्ट्रार या लाभकारी स्वामी पत्रक में पंजीकृत होगा वही ई-मतदान का लाभ ले सकेंगे। कोई भी व्यक्ति जो निर्धारित तिथि के अनुसार सदस्य नहीं है उसे इस नोटिस को केवल सुचना के उद्देश्य से लेना चाहिए। सदस्यों के मत देने के अधिकार कंपनी के इक्किटी केपिटल में उनके शेयर के भुगतान किए गये मुल्य के अनुपात में उक्त तिथि अनुसार रहेंगे ।

जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप में शेयर है या जिन्होंने कंपनी अथवा आरटीए के पास अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं करवाया है वैसे सदस्य कंपनी अववा कंपनी के आरटीए को अपना ई-मेल पंजीकृत करने के बाद ई-मतदान द्वारा मतदान कर सकते हैं । जिन शेयरधारकों के ई-मेल आईडी पंजीकृत नही हुए हैं, वे कंपनी के आरटीए के पास फॉर्म आईएसआर-1 जमा करके अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत कर सकते हैं तथा श्री.पवन सिंह बिष्ट, स्काईलाइन फाइनेरिशयल सर्विसेज प्राइवेट लिपिटेड, डी-153 ए, पहली मंजिल, फेज़-1, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110020 ई-मेल : compliances@skylinerta.com पर संपर्क सकते हैं। नोटिस में विस्तृत निर्देश दिए गए हैं।

कंपनी की वेबसाईट www.dhani.com पर 'Investors' section' अनुभाग से ई-वोटिंग निर्देशों सहित व्याख्यात्मक विवरण के साथ डाक मतपत्र की सूचना तथा डाक मतपत्र पर्ची डाऊनलोड कर सकते हैं या प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए कंपनी अधवा आरटीए को आवेदन कर सकते हैं।

गोटिस www.dhani.com, https://evoting.kfintech.com, www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है ।

बोटिंग से संबंधित किसी प्रश्न या शिकायत होने पर आम अंशधारकों के लिए 'अक्सर पूछी जानेवाली मरनावली' (FAQs) या 'ई-बोर्टिंग पुस्तिका' (e-voting user manual) देख सकते हैं जो https://evoting.kfintech.com के डाउनलोड सेक्शन पर उपलब्ध है अथवा श्री. एसबी राज्, डेप्बुटी वाईस गेसिडेन्ट, केफिन टेकनोलॉजीज लिमिटेड को सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31-32. वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, सेरीलींगमपल्ली मंडल, हैदराबाद -500 032, टोल की नं. 1-800-309-4001, और ई-मेल आयडी evoting@kfintech.com अथवा श्री राम मेहर, कंपनी साचिव, प्लॉट नं 108, पाँचवीं मॉजिल, आईटी पार्क, फेज़ 1, उद्योग विद्वार, गुडगाँव-122016, हरियाणा ram.g@dhani.com अथवा दूरभाष संख्या

+0124 6685939 पर संपर्क कर सकते हैं। परिणाम 22 जून, 2024 को या उससे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में स्कूटीनीज़र्स की रिपोर्ट के साथ पोषित किए जाएंगे और कंपनी की वेबसाइट www.dhani.com और केफिन्टेंक की वेबसाइट यानी https://evoting.kfintech.com पर भी रखे जाएंगे और स्टॉक एक्सबेंजों को सुचित किया जाएगा जहाँ

> बोर्ड के आदेशद्वारा धनी सर्विसेज लिमिटेड के लिए इस्ताक्षरत राम मेहर

> > कंपनी सचिव

दिनांक : 21 मई, 2024

स्थान : गुडगाँव

कंपनी के शेयर सुचीबद्ध हैं।

टाइटन कॉर्प लिमिटेड सीआईएन: L74899DL1990PLC039989 रजि. कार्यालयः आर–4, यूनिट नंबर–102, प्रथम तल, खिड़की एक्सटेंशन मेन रोड, मालवीय नगर, नई दिल्ली–110017 ईमेल: cs@tritoncorp.in, फोन: 011-49096562

31 मार्च 2024 को समाप्त तिमाही और वित्तीय वर्ष के लिए अंकेक्षित वित्तीय परिणाम

		स्टैंडअ	लोन			्र सर्भा	ईपीएस डेटा को छोड़ केन	कर लाख रुपय म
	तिमाही समाप्ति वर्ष समाप्ति			तिमाही सम			वर्ष समाप्ति	
विवरण	31.03.2024	31.12.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.12.2023	31.03.2024	31.03.2023
	(लेखापरीक्षित) (रेफर नोट 3)	(अनअंकेक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित) (रेफर नोट 3)	(अनअंकेक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
संचालन से कुल आय	27	ಚ	· ·	2.5		15		
कर से पहले शुद्ध लाभ/(हानि) और सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में (हानि)/लाभ का हिस्सा	(23.14)	(10.80)	(43.13)	(18.89)	(23.39)	(10.96)	(43.55)	(19.34
कर और असाधारण वस्तुओं के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि)।	(23.14)	(10.80)	(43.13)	(18.89)	(23.39)	(10.96)	(43.55)	(19.34
अवधि के लिए कुल व्यापक (हानि) / आय	(23.14)	(10.80)	(43.13)	(18.89)	(23.39)	(10.96)	(43.55)	(19.34
प्रदत्त इक्विटी पूंजी (प्रत्येक रु. 1/— अंकित मूल्य)	1,998.90	1,998.90	1,998.90	1,998.90	1,998.90	1,998.90	1,998.90	1,998.90
पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि को छोड़कर आरक्षित (अंतिम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार)			(985.38)	(942.24)			(1,976.59)	(1,933,04)
प्रति शेयर आय (प्रत्येक रु. 1/–) (वार्षिक नहीं)								
बुनियादी	(0.012)	(0.005)	(0.022)	(0.009)	(0.012)	(0.005)	(0.022)	(0.010)
तरल	(0.012)	(0.005)	(0.022)	(0.009)	(0.012)	(0.005)	(0.022)	(0.010)

1. उपरोक्त 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही और वित्तीय वर्ष के लिए सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में दायर किए गए स्टैंडअलोन और समेकित लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही और वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट (www.bseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट (www.tritoncorp.in) पर उपलब्ध है।

2. उपरोक्त स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों (ष्ड्ंड एएसा) के अनुसार तैयार किया गया है, इसके तहत जारी प्रासंगिक नियमों और लागू सीमा तक अन्य मान्यता प्राप्त लेखांकन प्रथाओं और नीतियों के साथ पढा जाता है। . 3. 31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही के आंकड़े पूरे वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित आंकड़ों और संबंधित वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही तक की समीक्षा की गई आंकड़ों के बीच संतुलन के आंकड़े हैं।

बोर्ड के आदेश से ट्राइटन कॉर्प लिमिटेड के लिए मीना रस्तोगी

डीआईएनः 01572002

www.readwhere.com

दिनांकः 21.05.2024 स्थानः नई दिल्ली

नई दिल्ली